



# उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 12.06.2021

थाना बिहार, जनपद उन्नाव

## दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों की रोकथाम एवं संबन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण:-** उ0नि0 राजीव कुमार यादव मय हमराह पोर्स द्वारा थाना बिहार में पंजीकृत मु0अ0सं0 186/21 धारा 363/376 भा0दं0वि0 व ¾ पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र सुरेश लोध उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ग्राम गुनीर थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर वर्ष को ग्राम मनिका पुर बस स्टॉप से गिरफ्तार किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1. राहुल पुत्र सुरेश लोध उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ग्राम गुनीर थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 राजीव कुमार यादव
2. का0 प्रवीम कुमार



# उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 12.06.2021

थाना आसीवन, जनपद उन्नाव

## **मौके से वाहन चोरी करते अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा वाहन चोर को चोरी मोटर साइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण:-** उ०नि० भीम शंकर मिश्रा मय हमराह फोर्स द्वारा जनता की सहायता से अभियुक्त धर्मेश पुत्र छोटेलाल नि० गेगलामऊ थाना आसीवन जनपद उन्नाव को ग्राम बाबाखेड़ा से एक अदद मोटरसाइकिल हीरो HF DOWN नं० UP 35W 5512 को चोरी करते समय जनता की सहायता से गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 121/21 धारा 379/411/427 भा०दं०वि० पंजीकृत कर अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1. धर्मेश पुत्र छोटेलाल नि० गेगलामऊ थाना आसीवन जनपद उन्नाव

**बरामदगी:-** एक अदद मोटरसाइकिल हीरो HF DOWN नं० UP 35W 5512

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० भीम शंकर मिश्र
2. कां० विजय कुमार



# उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 12.06.2021

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव

## **प्रेम प्रसंग में हुई युवक की हत्या में प्रेमिका व उसके दो साथी गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा युवक की हत्या कर शव के फेंके जाने के संबन्ध में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को मय आलाकत्ल सहित गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक-09.06.2021 को वादी कमलेश पुत्र लल्लन निवासी ग्राम विसूनपुर थाना अजगैन जनपद उन्नाव ने तहरीरी सूचना दिया कि मेरा लड़का शिव कुमार उर्फ कल्लू पुत्र कमलेश उम्र करीब 25 वर्ष जो दिनांक 08.06.21 को घर से कहीं गया था उसका शव दिनांक 09.06.21 को सुबह बिछिया से चमरौली मार्ग (सड़क) के किनारे सुनील यादव के खेत में पाया गया। वादी ने यह भी अंकित किया कि मेरे लड़के का प्रेम सम्बन्ध रीतू पुत्री स्व० श्रीपाल निवासी खोरी बिछिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव के साथ चल रहा था। मेरे पुत्र की हत्या रीतू पुत्री स्व० श्रीपाल निवासी उपरोक्त के साथ मिल कर प्रेमकुमार पुत्र स्व० पपली निवासी बिसूनपुर थाना अजगैन जनपद उन्नाव व उसके साथी कुछ अज्ञात लोगो ने की है। वादी की तहरीर पर मु०अ०स० 183/21 धारा- 302/34/201/120बी भा.द.वि पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पाया गया कि मृतक शिव कुमार उर्फ कल्लू पुत्र कमलेश का प्रेम प्रसंग रीतू पुत्री स्व० श्रीपाल से चल रहा था जिसमें रीतू के सहयोग से प्रेमकुमार पुत्र पपली नि० विसूनपुर थाना अजगैन उन्नाव व गोविन्द पुत्र पप्पू निवासी ग्राम खोरी मजरा बिछिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा शिवकुमार उर्फ कल्लू उपरोक्त की हत्या कर शव को सुनील यादव के खेत में फेंक दिया था। आज दिनांक 12.6.21 को प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स द्वारा चमरौली रोड बिछिया मार्ग से अभियुक्त गण प्रेमकुमार व गोविन्द उपरोक्त को धारा 302,201,34,120बी भा.द.वि व अभियुक्ता रीतू उपरोक्त को धारा 120 बी भा.द.वि के अन्तर्गत गिरफ्तार कर मा० न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण-

1. प्रेमकुमार पुत्र स्व0 पपली नि0 विसूनपुर थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
2. गोविन्द उर्फ गुब्बर पुत्र पप्पू नि0 खोरी मजरा बिछिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव।
3. रीतू पुत्री स्व0 श्रीपाल नि0 खोरी म0 बिछिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव।

### बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त गणों उपरोक्त के कब्जे से एक अदद कुल्हाड़ी रक्त रंजित आला कत्ल एवं एक अदद पेचकस रक्त रंजित भीगा हुआ लोवर आर्मी कलर व एक अदद सेन्डो बनियान लाल व तीन अदद मोबाईल

### पुलिस टीम -

1. प्र0नि0 अजय कुमार त्रिपाठी
2. उ0नि0 श्री लाखन सिंह
3. हे0का0 राधारमण
4. का0 मुकेश
5. का0 सचिन
6. म0का0 भावना



# उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 12.06.2021

रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद उन्नाव

## पुलिसकर्मियों के परिवारीजनों का हुआ टीकाकरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के निर्देशानुसार आज दिनांक 12.06.2021 को रिजर्व पुलिस लाइन उन्नाव में पुलिसकर्मियों के परिवारीजनों को कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीन लगाई जा रही है। उक्त अभियान दिनांक 09.06.2021 से जारी है । जिसमें अब तक 45 वर्ष से अधिक कुल 20 लोगों एवं 18 वर्ष से अधिक कुल 220 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है।

